



राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड

स्टेनोग्राफर, बैंकिंग सहायक और कंप्यूटर प्रोग्रामर की भर्ती हेतु ऑन-लाईन परीक्षा

सूचना पुस्तिका

इस पुस्तिका में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व वध पहलुओं के ब्योरे और संबं धत वषयवस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश हैं। आपको इस पुस्तिका का ध्यान से अध्ययन करने की सलाह दी जाती है क्यों क इससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मलेगी । ला गंग इन, बुलावापत्र संग्रहण, निर्देश पढना आदि के सहित आपको परीक्षा स्थल में लगभग चार घंटे के लए रहना पड सकता है । इस ऑनलाइन परीक्षा में निम्नानुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु वकल्प प्रश्नाव लयां होंगी :

स्टेनोग्राफर

अनु. क्र.	प्रश्नावली का नाम	प्रश्नों की संख्या	अंक	माध्यम	अव ध
1	अंग्रेजी	50	50	अंग्रेजी और हिन्दी अतिरिक्त अंग्रेजी	120 मिनट
2	आं कक क्षमता	50	50		
3	तर्कशक्ति	50	50		
4	राजस्थान संबंधी सामान्य ज्ञान	50	50		
	कुल	200	200		

बैंकिंग सहायक

अनु. क्र.	प्रश्नावली का नाम	प्रश्नों की संख्या	अंक	माध्यम	अव ध
1	अंग्रेजी	30	30	अंग्रेजी और हिन्दी अतिरिक्त अंग्रेजी	120 मिनट
2	संख्यात्मक अ भयोग्यता	40	40		
3	तर्कशक्ति	40	40		
4	राजस्थान संबंधी सामान्य ज्ञान	30	30		
5	कंप्यूटर ज्ञान	25	25		
6	लेखा	25	25		
7	राजस्थान कोऑपरेटिव अधिनियम और नियमावली 2001, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर आफ राजस्थान	10	10		
	कुल	200	200		

कंप्यूटर प्रोग्रामर

अनु. क्र.	प्रश्नावली का नाम	प्रश्नों की संख्या	अंक	माध्यम	अव ध
1	अंग्रेजी	30	30	अंग्रेजी और हिन्दी अतिरिक्त अंग्रेजी	120 मिनट
2	आं कक क्षमता	40	40		
3	तर्कशक्ति	40	40		
4	राजस्थान संबंधी सामान्य ज्ञान	40	40		
5	व्यावसायिक ज्ञान	50	50		
	कुल	200	200		

अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त सभी प्रश्नाव लयां अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएंगी । आप दिये गये 120 मिनट में कसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे । सभी प्रश्नों में बहुवकल्प होंगे । प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा । आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है और जिस वकल्प को आप उपयुक्त/सही समझते हैं उसे 'माउस क्लिक' करना है । आपने जिस वकल्प को क्लिक किया है वह उस प्रश्न का आपका उत्तर माना जाएगा । अगर आप गलत उत्तर देंगे तो दंड स्वरूप आपके अंकों में कटौती की जायेगी । ऐसे कसी भी प्रश्न के निर्धारित अंकों में से, जिसका आपने गलत उत्तर दिया है, दंड के रूप में 1/4 अंक काट लए जायेंगे ।

ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर, निम्न प्रक्रिया को अपनाकर निकाले जाते हैं :

- (i) गलत उत्तरों के लए दंड लगाने के बाद, संशोधित अंकों की गणना हेतु प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या पर वचार कया जाता है ।
 - (ii) समीकृत अंकों की गणना हेतु, व भन्न सत्रों में हुई प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, कठिनाई में सूक्ष्म अंतर, यदि कोई है, का ध्यान रखने के लए अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त संशोधित अंकों को समतुल्य कया जाता है Y&*
- * अभ्यर्थी द्वारा कसी भी प्रश्नावली में प्राप्त समीकृत अंकों को सभी फॉर्मों के अंकों के वतरण पर वचार करते हुए बेस फॉर्म से समीकृत कया जाता है ।
- (iii) प्रत्येक प्रश्नावली एवं परीक्षा में अंतिम अंकों को दशमलव बिन्दू सहित दो अंकों तक रिपोर्ट कया जाता है ।

नोट : कटऑफ दो चरणों में लागू होते हैं :

- (i) अलग-अलग प्रश्नावली के अंकों पर
- (ii) कुल अंकों पर

कृपया नोट करें क इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्न केवल उदाहरण हैं सर्वांगपूर्ण नहीं हैं । वास्तविक परीक्षा में प्रश्न अधिक कठिन या अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, जिनका क यहाँ वर्णन नहीं कया गया हो ।

नमूने के कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं ।

नमूना प्रश्न

अंग्रेजी

इस प्रश्नावली का प्रयोजन आपके अंग्रेजी भाषा ज्ञान की परीक्षा करना है। व्याकरण, शब्दावली, वाक्य पूर्ण करना, समानार्थी, वलौमार्थी, अनुच्छेद की बोधगम्यता आदि प्रश्नों से आपके अंग्रेजी भाषा संबंधी ज्ञान की परीक्षा की जाएगी। नीचे कुछ नमूने के प्रश्न प्रस्तुत हैं, उनका अध्ययन करें और उत्तर दें ।

निर्देश : निम्न लखत वाक्यों को सार्थक ढंग से पूर्ण करने के लए वाक्यों के नीचे दिये गये शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चयन करें।

- प्र.1. He quickly glanced the book to find what it said about the Indian economy.
(1) at (2) through (3) in (4) to (5) over
- प्र.2. The counsel urged the court to down the obnoxious law.
(1) enact (2) enforce (3) cancel (4) strike (5) declare
- प्र.3. The local official the Minister of the situation.
(1) explained (2) warned (3) apprised (4) told (5) intimated

निर्देश : कृपया प्रत्येक वाक्य पढ़कर यह पता करें क क्या उसमें कोई व्याकरण संबंधी गलती है ? यदि कोई गलती हो तो वह वाक्य के कसी एक भाग में होगी । उस भाग का क्रमांक ही आपका उत्तर है । यदि वाक्य में कोई गलती नहीं है तो उत्तर (5) है ।

- प्र.4. I am twenty / two years old / when I first / joined the bank. No error
(1) (2) (3) (4) (5)
- प्र.5. To the Hindus / the Ganga is / holier than / any other river. No error
(1) (2) (3) (4) (5)
- प्र.6. Of all the teachers / in our school / our class teacher / were very strict. No error
(1) (2) (3) (4) (5)

आंकक क्षमता

इस परीक्षा के माध्यम से संख्या संबंधी गणनाओं आदि में आपकी गति एवम् सटीकता की जाँच की जाएगी।

- प्र.1. 10 रुपये प्रति नींबू के भाव से 6 नींबूओं की कीमत कतने रुपये होगी ?
 (1) 6 (2) 10 (3) 60 (4) 61 (5) 610
- प्र.2. निम्न ल खत में से कौनसा अंक 4 का सही गुणक है ?
 (1) 27114 (2) 58204 (3) 48402 (4) 32286 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.3-4. निर्देश : निम्न ल खत में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या नहीं दी गयी। उस संख्या के स्थान पर प्रश्न चन्ह (?) लगा दिया गया है। आपको यह बताना है कि प्रश्न चन्ह के स्थान पर उत्तर संख्या 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आएगी। यदि इन चारों में से कोई भी ठीक न हो तो आपका उत्तर होगा (5) अर्थात् 'दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य'।
- प्र.3. $42 + 73 + 137 = ?$
 (1) 352 (2) 252 (3) 242 (4) 142 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.4. $20 \times \frac{1}{2} = ?$
 (1) 4 (2) 5 (3) 12 (4) 20 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.5. $0.7 \times 0.5 = ?$
 (1) 35 (2) 0.35 (3) 0.0035 (4) 0.035 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.6. $15 : 25 :: 6 : ?$
 (1) 9 (2) 10 (3) 30 (4) 15 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

तर्कशक्ति

यह प्रश्नावली यह देखने के लिए है कि आप कतनी अच्छी तरह से सोच सकते हैं और कम्प्यूटर के साथ काम करने की आपकी अभिरूचि/ज्ञान संबंधी निर्णय लेने के लिये भी है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे। यहाँ नमूना के तौर पर प्रश्न दिये हैं।
 निर्देश : निम्न ल खत प्रत्येक प्रश्न में, पांच अक्षर समूह या शब्द दिये गये हैं। इनमें से चार अक्षर समूहों या शब्दों में कसी न कसी प्रकार की समानता है जब कि एक भिन्न है। ज्ञात कीजिए कि कौनसा एक भिन्न है।

- प्र.1. (1) काला (2) लाल (3) हरा (4) रंग (5) पीला
- प्र.2. (1) BC (2) MN (3) PQ (4) XZ (5) ST
- प्र.3. (1) आम (2) सेब (3) संतरा (4) अमरूद (5) गुलाब
- प्र.4. यदि 'A " B' का अर्थ है 'A में B जोड़ें', 'A ' B' का अर्थ है 'A में से B घटाएँ', 'A # B' का अर्थ है 'A को B से विभाजित करें' और 'A ⊗ B' का अर्थ है 'A का B से गुणा करें'; तब निम्न ल खत में से कौनसा दो दिन के विक्रय का औसत है जब S₁ और S₂ क्रमशः पहले और दूसरे दिन के विक्रय हैं ?
 (1) (S₁ ' S₂) # 2 (2) 2 # (S₁ " S₂) (3) (S₁ " S₂ # 2)
 (4) (S₁ ⊗ S₂) # (S₁ " S₂) (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.5-6. निम्न ल खत प्रश्नों में अंक एवं प्रतीक समूह को दी गई योजना और शर्तों के अनुसार अक्षर कोड देकर कोडबद्ध किया जाता है। आपको उस अक्षर कोड समूह के क्रमांक का पता लगाना है, जो अंक प्रतीक के संयोजन का सही ढंग से निरूपण करता है। उस अक्षर कोड का क्रमांक ही आपका उत्तर होगा। यदि कोई भी अक्षर कोड समूह सही न हो तो उत्तर (5) अर्थात् 'दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य' दीजिए।
- | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----|---|---|---|---|---|
| अंक/प्रतीक | : | 2 | \$ | @ | 7 | 6 | # | 8 |
| अक्षर कोड | : | Q | B | H | L | F | M | T |
- शर्त :
 1. यदि पहला और अंतिम तत्व एक प्रतीक हो तो दोनों को 'A' कोड दिया जाएगा।
 2. यदि पहला तत्व एक सम अंक है और अंतिम तत्व एक प्रतीक है तो उनके कोड परस्पर बदले जाएंगे।
- प्र.5. 67@2#
 (1) FLHQM (2) MLHQF (3) MLQHE (4) FLQHM (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.6. \$687#
 (1) AFTLA (2) AFTLM (3) BFTLA (4) BFTLM (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

राजस्थान संबंधी सामान्य ज्ञान

- प्र.1. राजस्थान में अपना गांव अपना काम योजना कब शुरू की गई थी?
 (1) 01.01.2001 (2) 01.01.1991 (3) 01.01.1999
 (4) 01.01.1990 (5) उल्लिखित विकल्पों को छोड़कर अन्य

संख्यात्मक अभियोग्यता

यह प्रश्नावली संख्यात्मक गणनाओं, जैसे संगणन, संख्यात्मक तर्कसंगतता, सारण्यों एवं आलेखों से निष्कर्ष निकालना आदि में आपकी गति एवं शुद्धता की जाँच के लिये है।

- प्र.1-3. निम्न लखत सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 एक चयन परीक्षा में लखत परीक्षा में 300 में से और साक्षात्कार में 100 में से उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के अनुसार 1000 उम्मीदवारों का वर्गीकरण

लखत परीक्षा अंक	साक्षात्कार के अंक					
	30 से कम	30-39	40-49	50-59	60-69	70 और अधिक
260 और अधिक	8	18	26	18	26	4
210 से 259	5	4	30	22	10	9
160 से 209	16	10	45	56	18	9
110 से 159	28	42	100	190	15	5
60 से 109	35	115	20	8	7	5
60 से कम	32	32	20	4	6	2

- प्र.1. कतने उम्मीदवारों को लखत परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में 69 प्रतिशत और अधिक अंक मिले हैं ?
 (1) 22 (2) 49 (3) 13 (4) 9 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.2. लगभग 325 उम्मीदवारों को लखत परीक्षा में उत्तीर्ण करना है तो उत्तीर्ण होने के लिए कतने प्रतिशत अंक होने चाहिए?
 (1) 20 से अधिक (2) 70 से अधिक (3) 36 से अधिक
 (4) 63 से अधिक (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.3. लगभग 42 प्रतिशत उम्मीदवार साक्षात्कार के अंकों की निम्न लखत में से कस श्रेणी में आते हैं ?
 (1) 110-159 (2) 110 और कम (3) 50 से 70
 (4) 50 और अधिक (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

कंप्यूटर ज्ञान

- प्र.1. असंगत का चयन कीजिए।
 (1) मॉनिटर (2) कुंजी पटल (3) फ्लॉपी ड्राइव (4) वन्दोज (5) हार्ड डिस्क ड्राइव
- प्र.2. LAN का पूर्ण रूप ———
 (1) लोकल (Local) आक्सेस (Access) नेटवर्क (Network)
 (2) लोकल (Local) एरीया (Area) नेटवर्क (Network)
 (3) लॉग (Long) एरीया (Area) नोड (Node)
 (4) लोकल (Local) एरीया (Area) नोड (Node)
 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.3. ----- कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवायस है।
 (1) प्रिन्टर (2) CPU (3) मॉनिटर (4) की बोर्ड (5) CD
- प्र.4. RAM का पूरा रूप क्या है ?
 (1) Random Adaptive Mouse (2) Random Adaptive Memory (3) Random Access Memory
 (4) Random Access Mouse (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

लेखा

- प्र.1. सभी खर्चों को नामे करें और सारी आय को क्रेडिट करें, _____ पर लागू होता है।
- (1) व्यक्तिगत खाता (2) वास्तविक खाता (3) नामिक खातों
(4) नकदी खातों (5) जर्नल खातों

राजस्थान कोऑपरेटिव अधिनियम 2001 और नियम 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर आफ राजस्थान

- प्र.1. _____ से आशय ऐसी सोसाइटी से है जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक उत्थान है और ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्य या तो अनन्य रूप से महिलाएं हैं या ऐसी समितियां हैं जिनमें अनन्य रूप से महिला सदस्य हैं।
- (1) मेन एंड वुमैन सोसाइटी (2) सीनियर वुमैन सोसाइटी (3) गर्ल सोसाइटी
(4) वुमैन अपलिफ्टमेंट सोसाइटी (5) वुमैन सोसाइटी

ऑन-लाईन परीक्षा का ववरण :

- (1) परीक्षा ऑनलाइन अर्थात कंप्यूटर पर होगी ।
- (2) अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के अतिरिक्त सभी प्रश्न अंग्रेजी व हिन्दी में होंगे ।
- (3) सभी प्रश्नों में बहु वकल्प होंगे । प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा । उम्मीदवार के सही उत्तर चुनकर उसे उस वकल्प को 'माउसक्लिक' करना है जो सही है । क्लिक कया गया वकल्प उस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा । कसी भी प्रश्न का उत्तर, अंकन के लये तभी मान्य होगा जब उम्मीदवार ने उसको "Save & Next" अथवा "Mark for Review & Next" के साथ सेव कया हो Y&
- (4) सर्वर पर घड़ी सेट की गई है और आपके स्क्रीन पर ऊपरी दाएं कोने में काउंट डाउन टाइमर आपके लए परीक्षा पूरी करने के लए शेष समय दर्शाएगा । घड़ी में समय पूरा हो जाने पर परीक्षा का समय स्वतः पूरा हो जाता है आपको अपनी परीक्षा समाप्त या सब मट नहीं करनी है ।
- (5) स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट, प्रत्येक प्रश्न के लए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है :

1 आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं।

2 आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

3 आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

4 आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिह्नित किया है।

5 प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिह्नित है , उसका मूल्यांकन किया जायेगा ।

पुनर्विचार के लए चिह्नित (Marked for Review) स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जिसे आपने प्रश्न को दुबारा देखने के लए सेट कया है । यदि आपने कसी प्रश्न के लए उत्तर चुना है जिसे पुनर्विचार के लए चिह्नित कया है, तब मूल्यांकन में उस उत्तर पर विचार कया जाएगा ।

- (6) उत्तर देने के लए प्रश्न चुनने के लए आपको निम्न ल खत में से एक करना है :
- a. उस नंबर के प्रश्न पर सीधे जाने के लए आपके स्क्रीन के दाएं तरफ स्थित प्रश्न पैलेट पर प्रश्न नंबर पर क्लिक कीजिए। नोट करें क इस वकल्प के प्रयोग पर वर्तमान प्रश्न का आपका उत्तर सेव नहीं होता है ।
- b. वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने के लए और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लए 'Save & Next' पर क्लिक कीजिए।
- c. वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने, उसे रिव्यू हेतु मार्क करने और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लए 'Mark for Review & Next' पर क्लिक कीजिए ।

- (7) अपना उत्तर चुनने के लए, एक वकल्प बटन पर क्लिक कीजिए ।
- (8) अपना उत्तर बदलने के लए दूसरा वांछित वकल्प बटन क्लिक कीजिए ।
- (9) अपना उत्तर सेव करने के लए आपको **Save & Next>** पर क्लिक करना चाहिए ।
- (10) चुना गया उत्तर ड सलेक्ट करने के लए, चुने गए वकल्प पर फर से क्लिक कीजिए या **Clear Response** बटन पर क्लिक कीजिए ।
- (11) रिव्यू के लए प्रश्न मार्क करने के लए **Mark for Review & Next>** पर क्लिक कीजिए । यदि **Marked for Review** प्रश्न के लए उत्तर चुना जाता है तो अंतिम मूल्यांकन में उत्तर पर वचार कया जाएगा ।
- (12) कसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लए, पहले प्रश्न सलेक्ट कीजिए और फर नये उत्तर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद **Save & Next** बटन पर क्लिक कीजिए ।
- (13) जो प्रश्न उत्तर देने के बाद **'Save'** या उत्तर देने के बाद **'Mark for Review'** कए गए हैं, सर्फ उन्हीं प्रश्नों पर मूल्यांकन के लए वचार कया जाएगा ।
- (14) उम्मीदवारों से अनुरोध हैं क "टेस्ट एड मनिस्ट्रेटर" के निर्देशों का ध्यान से अनुसरण करें । यदि कोई उम्मीदवार निर्देशों/नियमों का अनुसरण नहीं करता है तो इसे कदाचार/अनु चत तरीके अपनाने का मामला माना जाएगा और उम्मीदवार को **आर सी आर बी** द्वारा निर्णत अव ध के लए परीक्षाओं में बैठने से वं चत कर दिया जाएगा ।
- (15) उम्मीदवार केवल परीक्षा शुरू होने से पहले टेस्ट एड मनिस्ट्रेटर को अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है । परीक्षा शुरू होने के बाद कसी भी क्वेरी (शंका) का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।
- (16) दिए गए समय की समाप्ति के बाद, उम्मीदवार ना ही कसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और ना ही अपने उत्तर जांच पाएंगे। उम्मीदवार ने 'सब मट>' बटन क्लिक नहीं कया होगा तब भी कंप्यूटर सस्टम द्वारा उसके उत्तर स्वतः सेव कर लए जाएंगे ।
- (17) कृपया नोट करें :-
- (a) परीक्षा का पूर्ण समय समाप्त होने तक उम्मीदवारों को 'फाइनली सब मट' करने नहीं दिया जाएगा ।
- (b) एक बार परीक्षा शुरू हो जाने पर कसी भी परिस्थिति में कोई उम्मीदवार की-बोर्ड की कसी भी बटन पर क्लिक नहीं करेगा क्यो क इससे परीक्षा लॉक हो जाएगी ।
- (ब) सामान्य निर्देश :
- (1) कृपया बुलावा पत्र में तारीख, समय और परीक्षा स्थल का पता नोट करें ।
- (2) परीक्षा स्थल की पृष्टि करने के लए ऑनलाइन परीक्षा से एक दिन पहले आप परीक्षा स्थल जाकर देख सकते हैं ता क परीक्षा के दिन आप समय पर रिपोर्ट कर सकें ।
- (3) आपका हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चपकाकर बुलावा पत्र अपने साथ परीक्षा स्थल पर लाया जाना चाहिए। (अच्छा होगा क वही फोटो चपकायें, जिसे पंजीकरण के समय अपलोड कया गया हो ।)
- (4) परीक्षा स्थल पर टेस्ट एड मनिस्ट्रेटर और **आर सी आर बी** प्रतिनि ध के निर्देशों का आपको निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए । आप निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आपको अयोग्य ठहराया जाएगा और परीक्षा स्थल छोड़कर जाने के लए कहा जाएगा ।
- (5) परीक्षा के दौरान कैल्क्युलेटर (अलग या घड़ी के साथ), कताबों, नोटबुकों या लखे नोटस, सेल फोन (कैमेरा सहित या रहित) या अन्य कसी इलेक्ट्रानिक साधन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (6) आपके अपने फोटोग्राफ को इस बुलावे-पत्र पर चपका कर उसे मूलरूप में वर्तमान में वैध फोटो युक्त पहचान का प्रमाण और उसकी एक फोटोकापी के साथ लाएं - यह अनिवार्य है । कृपया यह प्रवेश-पत्र तथा पहचान के प्रमाणपत्र की फोटो कापी समु चत रूप से स्टेपल करके पर्यवेक्षक को सौंप दे । वर्तमान में वैध फोटो पहचान प्रमाण हैं - पैनकार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइ वंग लाइसेंस/फोटोग्राफ वाले वोटर्स कार्ड/फोटोग्राफ युक्त बैंक पास बुक / आ धकारिक लेटर हेड पर गजटेट अ धकारी द्वारा जारी फोटो पहचान का प्रमाण/आ धकारिक लेटर हेड पर जन प्रतिनि ध द्वारा जारी फोटो पहचान का प्रमाण/मान्यता प्राप्त कालेज/यूनिवर्सटी द्वारा जारी वैध वर्तमान पहचान पत्र/फोटोग्राफ युक्त आधार/ ई-आधार कार्ड/कर्मचारी का मूल पहचान पत्र/फोटोग्राफ युक्त बार कौं सल पहचान पत्र । कृपया नोट करें - राशन कार्ड और लर्नर ड्राइ वंग लाइसेंस को वैध पहचान-प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कया जाएगा । कृपया ध्यान दें क प्रवेश-पत्र पर लखा गया आपका नाम फोटो पहचान प्रूफ पर दिखते नाम के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए । महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के पश्चात अपने पहला / अंतिम /बीच के नाम में परिवर्तन कया हो वे इस पक्ष का वशेष ध्यान दें । बुलावा पत्र पर दिए गए नाम और फोटो पहचान प्रूफ में यदि जरा भी बेमेल हुआ तो आपको परीक्षा में शा मल होने नहीं दिया जाएगा ।

- (7) बायोमैट्रिक डाटा (अंगूठे का निशान) और फोटोग्राफ परीक्षा स्थल पर दो बार लया जाएगा -परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद । बायोमैट्रिक डाटा सत्यापन अधिकारी का इसकी स्थिति (डाटा मैच करता है या नहीं करता है) के बारे में निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लए बाध्यकारी होगा । बायोमैट्रिक डाटा कैप्चर करने/सत्यापन करने की प्रक्रया में कसी भी अवसर पर सहभागी होने से इनकार करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है । इस संदर्भ में कृपया निम्न ल खत का ध्यान रखे:
- (क) यदि उंग लयाँ पर कोई परत हो (स्याही/मेहंदी/रंग आदि लगी हुई) तो उन्हें धोना सुनिश्चित करें ता क परीक्षा की ति थ से पहले उन पर लगी परत उतर जाए ।
- (ख) यदि उंग लयाँ मैली या धुलभरी हों तो अंगूठे के निशान के (बायोमैट्रिक) लए जाने से पहले उन्हें धोकर सुखा लेना सुनिश्चित करें।
- (ग) सुनिश्चित कर लें क दोनों हाथों की उंग लयाँ सूखी हों । यदि उंग लयाँ नम हों तो प्रत्येक उंगली पोंछकर उसे सुखा लें।
- (घ) यदि कैप्चर कया जाने वाला अंगूठा चोटिल/क्षतिग्रस्त हो तो तुरंत परीक्षा केद्र में संबं धत प्रा धकारी को सू चत करें।
- (इन बिन्दुओं में से कसी का भी पालन न करने पर परीक्षा में शा मल होने से वं चत रखा जाएगा ।)
- (8) सही व गलत उत्तरों के पैटर्न में समानता का पता लगाने के लए आपके प्रत्युत्तरों का परीक्षा में सम्मिलित अन्य उम्मीदवारों के साथ वश्लेषण कया जायेगा, यदि निर्धारित प्रक्रया के अनुसार यह अनुमान लगता/निष्कर्ष निकलता है क प्रत्युत्तरों में सहभा गता की गई है और प्राप्त अंक वास्तवक/वैध नहीं है तो आपको अयोग्य ठहराया या उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है । नकल करते, सहायता लेते या देते या उम्मीदवार के लए अनु चत ऐसा व्यवहार करते हुए उम्मीदवार के मूल्यांकन पर वचार नहीं कया जाएगा । आगे ऐसे उम्मीदवार के खलाफ **आर सी आर बी** उसके द्वाारा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है ।
- (9) आपको अपने साथ एक बाल-पाइंट पेन लाना चाहिए । परीक्षा के अंत में अपने उत्तर सब मट करने से पहले जिन प्रश्नों को आप रिव्यू करना चाहते हैं उनके प्रश्न नंबर लखने या रफ वर्क करने के लए आपके कागज का एक पन्ना दिया जाएगा। परीक्षा पूरी होने के बाद स्थल छोड़ने से पहले आपको कागज का यह पन्ना टेस्ट एड मनिस्ट्रेटर को दे देना है ।
- (10) परीक्षा के संचालन में कसी समस्या के आने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है जिसकी वजह से टेस्ट ड लवरी और/या रिजल्ट प्रभावित हो सकता है । ऐसी स्थिति मे समस्या का समाधान करने के लए हर संभव प्रयत्न कया जाएगा, जिसमे यदि जरूरी हुआ तो फर से परीक्षा ली जा सकती है । इस संबंध में परीक्षा संचालन संस्था का निर्णय अंतिम रहेगा । इस तरह के परीवर्तन को स्वीकारने के लए अनिच्छुक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी ।
- (11) यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र में आयोजित होती हैं तो सभी सत्रों में प्रयुक्त व भन्न टेस्ट बैटरियो क ड फकल्टी स्तर के अंतर को एडजस्ट करने के लए व भन्न सत्रों के स्कोर को इक्वेट कया जाएगा । यदि सेंटर पर कसी अभ्यर्थी के लए नोड क्षमता कम है या कोई तकनीकी खामी होती है तो एक से अधिक सत्र की आवश्यकता हो सकती है ।
- (12) परीक्षा की सामग्री या उसकी कसी अन्य जानकारी, पूर्णतया या अंशतः को प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुनः प्रस्तुत करने, ट्रांस मट करने, स्टोर करने या उसके ट्रांस मशन और स्टोरेज को सुगम बनाने वाले या परीक्षा कक्ष में दिए गए कागज-पत्र को ले जाने वाले या परीक्षा सामग्री के अन धकृत कब्जाधारी पर अ भयोग चलाया जा सकता है ।
- (13) चयन प्रक्रया के कसी भी चरण में, उम्मीदवार द्वाारा गलत सूचना प्रदान करने और/अथवा प्रक्रया का उल्लंघन करने के मामले में, उम्मीदवार को चयन प्रक्रया से अयोग्य घो षत कर दिया जाएगा और भ वष्य में उसे **आर सी आर बी** की कसी भी भरती प्रक्रया में भाग लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी । यदि ऐसे मामलें का वर्तमान चयन प्रक्रया में पता नहीं चलता है ले कन बाद में पता चलता है तो ऐसी अयोग्यता को पूर्वव्यापी प्रक्रया से लागू कया जाएगा ।

याद रखने के लए महत्वपूर्ण बिंदु :

आपको अपने साथ निम्न ल खत लाने की सूचना दी जाती है :

- (1) मूल प्रति बुलावा पत्र जिस पर फोटो चपका हुआ हो और फोटो ID कार्ड जैसे क 6 बिंदु में निर्धारित कया गया है ।
- (2) एक बाल पाइंट पेन ।

आपको शुभकामनाएं